



एक भारत श्रेष्ठ भारत

Aaj Ka Vakya

Let's learn one sentence every day in 22 different Indian Languages

23. Please take good care of yourself.

ASSAMESE	অনুগ্রহ কৰি আপোনাৰ সু-যত্ন লওঁক।	Anugrah kori apunar su-jotno louk.
BENGALI	দয়া কৰে নিজের খেয়াল রাখবেন।	Doya kore nijer kheyal rakhben.
BODO	অননানৈ নোঁথাঙা নোঁথানি ফাৰসে জোথোন লা।	Onnanwi nwnghthanga nwnghthangni parsea jwtnw la.
DOGRI	मेहरबानी करिये अपना खरी चाल्लीं ध्यान रक्खो।	Meharabaanee kariyai apanaa kharee chaalleen dhyaan rakkho.
GUJARATI	કૃપા કરીને તમારી સારી સંભાળ રાખો.	Khupa karine tmaari sambhal rakho.
HINDI	आप अपना पूरा-पूरा ध्यान रखिएगा.	Aap apna poora poora dhyan rakhiyega.
KANNADA	ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.	Dayavittu nimma bagge kaalaji vahisi.
KASHMIRI	مہربانی کر تھ تھ اویو پُن پور پور خیال۔	Meherbaeni karith thaewiw panun puri pur khayal.
KONKANI	उपकार करुन स्वताची बरी जतनाय घे.	Upkaar karun svataachi bari zatnaai ghe.
MAITHILI	कृपा क अहाँ अप्पन ध्यान राखू।	Kripa ka ahan appan dhyan raakhu.
MALAYALAM	ദയവായി നിങ്ങളെ സ്വയം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക.	Dayavaayi ningal swayam nannaayi sradhikkuka.
MANIPURI	চানবীদুনা নশামক চেকশিন-থৌরাং লোখৎপীযু	Adom nasagi cheksin thourang loubiyu.
MARATHI	कृपया स्वतःची व्यवस्थित काळजी घ्या.	Krupaya swatahachi vyavasthit kaalji ghyaa.

NEPALI	आफ्नो राम्रो ख्याल राखनु होला।	Aafno ramro khyal rakhnu hola.
ODIA	ଦୟାକାରି ଭଲ ଭାବେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ	Dayakari bhala bhabe nijara jatna ni- antu.
PUNJABI	ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।	Kirpa karke apna khyal rakho.
SANSKRIT	कृपया स्वीयं ध्यानं सदा रक्षयताम्।	Kripya sviyam dhyanam sada rakshy- taam.
SANTALI	बिस् ते तेहेन् में हा।	Bes te taken me haan.
SINDHI	مهرباني ڪري پنهنجو سٺي نموني خيال رکھو.	Mharbunae kare panhinjo suthe na- mune khayaalu rakho.
TAMIL	தயவு செய்து தங்கள் உடல் நலத்தை நன்கு கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.	Thayavu seidhu thangal udal nalaththai nangu kavaniththu kollungal.
TELUGU	మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి.	Mīru jāgrattagā uṇḍaṇḍi.
URDU	آپ اپنا پورا پورا خیال رکھیے گا۔	Aap apna poora khayal rakhiyega.